



संख्या-17/2021/1100/77-6-2021-3(बजट)/16टी.सी.

प्रेषक,

सुजाता शर्मा,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग,

उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2021

विषय- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु रु. 687.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० वित्तीय निगम के पत्रांक-805/विनि/वियोवि/2020-21 दिनांक 01-02-2021 द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु पात्र इकाई मेसर्स सुरुचि फूड्स प्रा० लि० मथुरा को स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि वितरित किये जाने हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष कुल धनराशि रु. 687.20 लाख (रुपये छः सौ सत्तासी लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	इकाई का नाम	धनराशि (लाख में)
1	मेसर्स सुरुचि फूड्स प्रा० लि० मथुरा (वित्तीय वर्ष 2016-17)	687.20
	योग-	687.20 (रुपये छः सौ सत्तासी लाख बीस हजार मात्र)

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु.120.00 करोड़ (रु० एक सौ बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुल धनराशि रु. 687.20 लाख (रुपये छः सौ सत्तासी लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह धनराशि जिस इकाई को भुगतान किया जाना है उसके बैंक खाते में सीधे आहरित कर जमा की जाएगी। जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबंध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

- हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 2- उ0प्र0 वितीय निगम द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित ब्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
 - 3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।
 - 4- किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त अन्य/बैंक खाते/किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
 5. स्वीकृत धनराशि सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से पात्र इकाई के खाते में भेजी जायेगी।
 - 6- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उ0प्र0 वितीय निगम द्वारा रखा जाएगा।
 - 7- यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003(यथा संशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।
 - 8- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 वितीय निगम पर होगा। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।
 - 9- यदि इन इकाइयों द्वारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
 - 10- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 वितीय निगम पर होगा। उ0प्र0 वितीय निगम द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 (यथा संशोधित) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
 - 11- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
 - 12- यदि उ0प्र0वितीय निगम द्वारा किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो उ0प्र0 वितीय निगम द्वारा शासन को 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।
 - 13- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा। उ0प्र0 वितीय निगम को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष उ0प्र0 वितीय निगम द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

- 14- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, 07.04.2020 एवं 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 15- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-06-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई6-266/दस-2021 दिनांक 26-03-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-17/2021/1100(1)/77-6-2021-3(बजट)/16टी.सी.तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0वित्तीय निगम,कानपुर को पत्रांक-805/विनि/वियोवि/2020-21 दिनांक 01-02-2021 एवं पत्रांक-1000/विनि/वियोवि/2020-21 दिनांक 09-03-2021 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 9- नियोजन अनुभाग-1/4
- 10- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुजाता शर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।